

Mitsuchem Plast Ltd.

(Formerly known as Mitsu Chem Pvt. Ltd.)

329, Gala Complex, Din Dayal Upadhyay Road,
Mulund (W), Mumbai - 400 080, Maharashtra, INDIA.

T : + 91 22 25920055 F : + 91 22 25920077

E : mcpl@mitsuchem.com W : www.mitsuchem.com

CIN : L25111MH1988PLC048925



Date: September 12, 2022

BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street
Mumbai- 400001

Script Code : 540078

Dear Sir/Madam,

Sub: Newspaper Publication- Corrigendum w.r.t. Draft Red Herring Prospectus filed with the Securities and Exchange Board of India.

In compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the newspaper advertisement published in Business Standard (english and hindi editions) and in Pratahkal (marathi edition) on September 12, 2022.

Kindly take the same on record.

Thanking you.

Yours truly,

FOR MITSU CHEM PLAST LIMITED

Drishti Thakker
Company Secretary
Encl: as above

Manufacturing Units

Unit-I: N-83/84, MIDC, Tarapur,
Boisar, Dist. Palghar -401506.
Maharashtra.

Unit-II: J-237, MIDC, Tarapur,
Boisar, Dist. Palghar -401506.
Maharashtra.

Unit-III: Plot No. 24/11, 24/12, 24/15, 24/8B & 25/1,
Village-Talavali (Lohop) , Post: Majgaon,
Opp. Birla Carbon Ind-P Ltd., Tal. Khalapur,
Dist: Raigad, Pin: 410220. Maharashtra, India.

• Industrial Containers • Furniture Parts • Automotive Parts • Medical Devices etc.

Blow Molding | Injection Molding | Custom Molding

Time-starved investors must stick to index funds



TRUTH BE TOLD

HARSH ROONGTA

Amit, a prospective client in his early fifties, held 82 mutual fund schemes, 28 listed equity shares, and a smattering of bonds and preference shares. He had accumulated this mishmash of investments over the past 22 years. The total value of his investments now stood at around ₹2 crore.

Amit gloated about his investment skills based on the fact that his investment in the shares of one company had multiplied 100 times since 2001. He mentioned that he had studied the company well at the time of investing. He received his annual bonus around the same time and hence invested ₹20,000. The share price fell drastically after he invested. Not wanting to book a loss, Amit had held on to them, though he did not invest more as he had intended. After several years, the share price revived and his investment was now valued at around ₹20 lakh.

Our queries showed that Amit did not monitor his portfolio closely. His guesstimate of the total value of his portfolio was off by 20 per cent. He also had no idea of the annualised return from each of his investments, nor from the portfolio as a whole.

All his investments had a similar story. Some had done well and some had done badly. Amit was proud that he did not have even one big loser among the equity shares and mutual funds he held. Amit had never made big investments in any one share or

mutual fund scheme, and had rarely, if ever, sold anything.

Our analysis showed that the return on his entire portfolio was only 4 per cent per annum. His investment value should have been 25 per cent higher just to match inflation. If he had invested the same money in an index fund, the value of his portfolio would have been around ₹6 crore, three times what he had achieved. While Amit thought he had done well, he had actually done quite badly.

Amit's investing style consisted of extended periods of inaction interspersed with bouts of activity. It had many positives: He had waited for decades for results from his equity investments; he hadn't borrowed to invest; and he had stayed away from investment-cum-insurance policies. Yet, unplanned investments and mindless over-diversification had produced a disappointing outcome.

Amit readily admitted he would have sold the hundred-bagger much earlier had the absolute value been higher than it was. In effect, even the hundred-bagger was a fluke arising from laziness rather than conscious choice.

Many 'money rich but time poor' investors like Amit are unable to create wealth despite allowing their equity investments a lot of time to grow. That is because their ability to wait is actually inertia and not patience. Inaction, when exercised consciously, is patience, otherwise it is inertia or laziness. Patience can work wonders if the equity investments are structured well. Index funds are a simple tool that can generate serious wealth for the patient investor.

An investment advisor, who can manage investor behaviour, can also play a crucial role by ensuring that the time-poor investor doesn't make mistakes during his brief bursts of hyperactivity. He can also construct a portfolio based on a pre-agreed mix of risk and return and ensure that the investor stays the course and reaps the rewards over the long term.

The writer heads Fee-Only Investment Advisors LLP, a SEBI-registered investment advisor; Twitter: @harshroongta

While Amit had stayed invested for a long time, avoided leverage, and shunned investment-cum-insurance policies, unplanned investments and mindless diversification had produced a disappointing outcome

Term cover is not enough, buy personal accident cover too

This policy is especially handy when an accident results in disability, impairing a person's earning capacity

BINDISHA SARANG

Businessman Cyrus Mistry's death in a car crash on September 4 has brought the risks related to road travel into the national spotlight. It has also highlighted the need to purchase a personal accident (PA) insurance cover.

What's covered

Even if a person has a term insurance cover, he should still buy a PA cover. "A PA policy provides coverage against accidents leading to death, disability (partial or complete), and bodily injuries," says Naval Goel, founder and chief executive officer (CEO), PolicyX.com.

While a term insurance cover will make a payout on death, it will not pay anything if a person suffers a disability and can't work. It is this crucial gap in coverage that a PA policy fulfils.

"It will pay a benefit if you have a permanent disability. Some of these policies will also pay if you have a temporary but total disability," says Kapil Mehta, co-founder and chief executive officer, SecureNow.

On the death of a policyholder in an accident, the family receives a lump sum amount. PA insurance also covers hospitalisation and post-hospitalisation expenses. Many of these policies also offer cash allowance for a period.

According to Tarun Mathur, chief business officer (CBO)-general insurance, Policybazaar.com, "Apart from providing coverage against disability and death, many PA covers also provide financial support to the insured's dependants. They offer education

benefits to their children because the individual's earning capacity may reduce completely or partially after the accident."

Some policies also cover legal and funeral expenses.

Key exclusions

Those buying this policy must understand the exclusions. "It will not make any payout in case of a suicide, natural death, pre-existing disability, or if the person was under the influence of alcohol or drugs," says Goel.

According to Mehta, if you have broken a law, no payout will be made. He adds that the insured may also not receive a payout if there was extreme negligence on his part, or if the injury occurred while participating in an adventure sport. (While most PA policies don't cover adventure sports, one or two do.) According to Mathur, policies could also have exclusions related to hazardous occupations.

Who should buy a PA cover

People working in jobs where there is a high probability of accidents must buy this cover. Mehta says, "This cover is also relevant for most people below the age of 50 because they have a higher probability of suffering an accidental death as compared to a natural death."

Buying adequate sum insured is important. "The sum insured should be up to 100 times an individual's monthly income. If someone travels abroad frequently, then worldwide coverage is a must-have benefit," says Mathur.

According to T A Ramalingam, chief technical



WHAT DETERMINES PA INSURANCE PREMIUMS

- Premiums for PA covers vary from a few hundred rupees to a few thousand
- Premiums are higher for people in jobs that involve a lot of travelling
- Age, income, and amount of cover are other key determinants
- Policies that cover only permanent total disablement will be cheaper than those that also cover permanent partial disablement
- Cover for child's education will also bump up the premium
- Loan protector feature adds significantly to premium
- Other covers like day care procedures, dental treatment, home hospitalisation for accidental injuries, daily hospital cash cover also raise the premium amount

officer (CTO), Bajaj Allianz General Insurance, "When opting for a PA cover, it's critical to make an assessment of the number of breadwinners and dependants in the household."

Motor insurance and accidents

Motor insurance policies also have a PA cover for the owner-driver. This is a compulsory extension that must be purchased by the vehicle owner, irrespective of whether he is buying a third-party liability cover or a comprehensive cover. This compulsory PA cover must be in the name of the vehicle owner.

"The PA cover under the motor insurance policy will pay compensation in case of bodily injuries, death or any perma-

nent disability due to an accident. The limit of the coverage is defined as ₹15 lakh by the Insurance Regulatory and Development Authority of India," says Saurabh Jhunjhunwala, assistant vice president (AVP), insurance products & sales, Prabhudas Lilladher Wealth.

The owner of either a two- or a four-wheeler must have a PA cover. In case of accidental death or total disability, the insurance company will pay the entire sum insured to the nominee.

Motor insurance payout amounts are low for personal accidents. "It is generally much better to buy a large sum insured that is available in the standalone PA policy," says Mehta. Goel adds that the

absence of a PA cover can lead to legal consequences.

Common queries answered

In most cases, whether a PA policy will make a payout depends on the terms and conditions, which can vary from one insurer to another, and also from one policy to another.

One common question is whether a person's claim would be accepted if he met with an accident while not wearing a helmet. "These claims are admissible since the insurer can't establish that the accident or death happened due to not wearing a helmet," says Sanjay Datta, chief underwriting, claims and reinsurance, ICICI Lombard General Insurance. He, however, adds that such claims are not legally tenable.

According to Mehta, if the local laws require that the person should wear a helmet, then the claim will not be paid. The same applies to a person not wearing a seatbelt. As far as over-speeding goes, Datta says, "This is subjective and depends on the First Information Report (FIR) establishing that the accident occurred due to over-speeding and gross negligence on the driver's part."

Jhunjhunwala adds, "If it is proved that an accident occurred as a result of carelessness or reckless behaviour, such as failing to use a seat belt or helmet, or driving too fast, the insurer may refuse to accept the claim."

Another question is whether a person will receive a claim if he meets with an accident in a different country. Ramalingam says, "If the insured has opted for a geography extension for the motor policy, and the insured has met with an accident in a reciprocal geography, then the PA claim will be settled according to policy terms and conditions."

How to Meet Decision Makers without an Appointment

Grow your business with **Business Standard** – the smart choice to reach those who matter!

- 71% readers in NCSS A1 and A2
- 12 English, 6 Hindi editions: 1000+ towns
- 6 lakh registered users, 12 million unique visitors per month
- Print readers spend >15 min per day, digital >5 min per visit
- The most-read business medium in top B-Schools
- 150+ events every year

Write to sales@bmail.in now, for a customised solution to your business requirements

Business Standard
Insight Out

bsindia bsindia business-standard.com

हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LIMITED

(A Government of India Enterprise)
Plant Plaza Road, Dhurwa-834004, Ranchi, Jharkhand

NOTICE INVITING BID Date : 08.09.2022

Tender No: 193 Date : 08.09.2022

Sealed bids in one-part bid system are invited from reputable and experienced parties to execute "Sub : Valuation of specified premises including land parcels located in HEC estate" as a single part bid.

Sale of Bid Document From 08.09.2022 to 26.09.2022 (Upto 11.00 Hrs.)

Bid Closing Date & Time : 26.09.2022 at 12.00 Hrs.

Bid Opening : 26.09.2022 at 16.00 Hrs.

Bid Documents with details may be collected from SDGM I/c TA Div, Room No-35, TA Div-Hqr on payment of Rs. 118/- (Inc GST) as tender document cost by DD (Non-refundable). Bid Documents may be downloaded from our website www.hectltd.com in which case Bid fee will have to be deposited along with the Bid.

SDGM I/c TA Div

HEC BUILDS MACHINES THAT BUILD THE NATION

DYNAMIC MICROSTEPPERS LIMITED

CIN: L45206MH1985PLC036261

Regd. Office: 506, Matharu Arcade, Above Axis Bank, Near Garware, Subhash Road, Vile Parle (East), Mumbai - 400 057 Tel No.: 022-26842631 Fax No.: 022-26843782

Website: www.dynamicmicrosteppers.com

Email Id: dynamicmicrostepperslimited@gmail.com

NOTICE

The notice is hereby given that:

- 37th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held on Friday, September 30, 2022 at 1:00 PM through video conferencing / other audio-visual means ("OAVM") facility pursuant to the MCA general circular no. 02/2022 dated May 5, 2022 02/2021 read with January 13, 2021 read with general circular no. 20/2020 dated May 05, 2020 to transact the businesses, as set out in the Notice of AGM.
- Annual Report for FY 2021-22 have been sent to all the members by electronic means at their registered email ID as prescribed by MCA and SEBI and for remaining shareholders as good corporate governance we have dispatched the Annual report. The same is also available on the Company's website www.dynamicmicrosteppers.com and also on website of BSE Limited i.e. www.bseindia.com. The dispatch of Annual Report has been completed on Thursday, September 08, 2022.
- Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date Friday, September 23, 2022, may cast their vote electronically on the ordinary/special business as set out in the Notice through electronic voting system through remote e-voting. All the members are informed that:
 - the remote e-voting shall commence on Tuesday, September 27, 2022 at 9:00 a.m. and shall end on Thursday, September 29, 2022 at 5:00 p.m.;
 - any person, who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of the Notice of AGM and holding shares as on the cut-off date may obtain the login ID and password by sending a request at instameet@linkintime.co.in.
 - members may note that: a) the remote e-voting module shall be disabled after the aforesaid date and time for voting i.e., e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m on Thursday, September 29, 2022 and once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently; b) Since the AGM will be convened through VC/ OAV, the facility for voting through physical ballot paper will not be made available, however members may cast their vote through e-voting which will be made available at the time of the AGM; c) the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again; and d) a person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting as well as voting at the AGM through OAVM facilities ;
- In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and InstaVote e-Voting manual available at <https://instavote.linkintime.co.in> under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 -4918 6000. Members may also write to the Company at dynamicmicrostepperslimited@gmail.com or at the Registered Office address.
- Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and Regulation 42 of the SEBI (Listing Regulations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is also hereby given that the Register of Members of the Company and Share Transfer Books will remain closed from Saturday, September 24, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

By order of the Board of Directors
For Dynamic Microsteppers Limited
Sd/-
Ashwin Shah
Director

Date: September 09, 2022
Place: Mumbai

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

MITSU CHEM PLAST LIMITED

Corporate Identity Number: L25111MH1988PLC048925

Our Company was originally incorporated as "Mitsu Chem Private Limited" on September 23, 1988 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Thereafter, the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Private Limited", pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on May 11, 2016 and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name, was granted to our Company on May 25, 2016 by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently, our Company was converted into public limited company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on May 11, 2016 and the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated June 8, 2016 was issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. For further details on the change in the name and the registered office of our Company, please see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 329, Gala Complex, 3rd Floor, Din Dayal Upadhyay Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080, Maharashtra, India.
Tel: +91 22 2592 0055 | Email: investor@mitsuchem.com | Website: <https://www.mitsuchem.com/>
Contact Person: Drishti Thakker, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: JAGDISH DEDHIA, SANJAY DEDHIA AND MANISH DEDHIA

FURTHER PUBLIC OFFERING OF UP TO (●) EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MITSU CHEM PLAST LIMITED ("OUR COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ (●) PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 12,500.00 LAKHS (THE "ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE (●) % OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

Potential Bidders may note the following:

This is with reference to the draft red herring prospectus dated July 5, 2022 (the "Draft Red Herring Prospectus" or the "DRHP") filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE"), together with NSE, the "Stock Exchanges") in relation to the Issue.

The equity shares of the Company are presently listed only on BSE. However, the Company intended to make further public offering on Stock Exchanges. However, as per the NSE direct listing criteria, the Company is not eligible under the direct listing route and hence, decided not to proceed further with making the application with NSE. Accordingly, all the references in relation to NSE will be removed and all the references in relation to Stock Exchanges will be replaced with BSE.

This Corrigendum to be read in conjunction with the DRHP and accordingly the disclosures in the DRHP stand amended pursuant to this Corrigendum. Relevant changes pursuant to this Corrigendum will be appropriately reflected in the Red Herring Prospectus and the Prospectus as and when it is filed with the RoC, the SEBI and the BSE.

All capitalized terms used here in and not specifically defined shall have the same meaning to them in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>IDBI Capital Markets & Securities Limited 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 1953 Email: mitsu.fp@idbicapital.com Investor grievance email: redressal@idbicapital.com Website: www.idbicapital.com Contact Person: Suhass Satardekar / Vimal Maniyar SEBI Registration No.: INM00010866</p>	<p>Bigshare Services Private Limited Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel: +91 22 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor grievance email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Babu Rapheal SEBI Registration No.: INR000001385</p>

For and on behalf of Mitsui Chem Plast Limited
Sd/-
Drishti Thakker
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: September 10, 2022

Disclaimer: Mitsui Chem Plast Limited is proposing subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to undertake a further public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated July 5, 2022 with SEBI on July 6, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in BSE at www.bseindia.com Book Running Leading Manager at www.idbicapital.com and the Company at www.mitsuchem.com. Potential Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, when available. Potential investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision. The announcement is not an issue to sell or solicitation of any issue to buy Equity Shares in any restricted jurisdiction including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made.

Raka



पाकिस्तान को मदद हो मगर न हो देश का अहित

भारत के लिए भी फायदेमंद

भारत का पाकिस्तान से व्यापार फायदे का सौदा है क्योंकि भारत ज्यादा निर्यात पाकिस्तान को करता है, जबकि आयात कम करता है। इसलिए व्यापार घाटे की स्थिति भी नहीं है। भारत- पाकिस्तान के ग्राहकों में कुछ हद तक समानता है और साथ ही पाकिस्तान से आयात में कम दूरी होने के कारण भी खर्च कम है, जो पाकिस्तान से व्यापार को भारत के अनुकूल बनाता है।

कृष्ण चन्द्र त्रिपाठी
रीवा, मध्य प्रदेश

व्यापार पर राजनीति हावी

अगस्त 2019 में भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित करने का निर्णय जम्मू कश्मीर में संवैधानिक परिवर्तनों का परिणाम था। हालांकि पाकिस्तान ने भारत के साथ सभी प्रकार के व्यापार निलंबित करने के दो साल पुराने फैसले को आंशिक रूप से बदलते हुए भारत से कपास और चीनी आयात करने की घोषणा की। वर्षों से भारत का पाकिस्तान के साथ व्यापार अधिशेष है।

सौरभ यादव
अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश

संकट में आर्थिक मदद उचित

भारत ने कोरोना काल में पाकिस्तान को भी कोविड दवाएं भेजी थीं। आज पाकिस्तान में बाढ़ से चार प्रांत पानी में घिरे हुए हैं। ऐसे में एक बार फिर पाकिस्तान भारत से हर तरह की व्यापारिक सहायता चाहता है। मानवता के नाते हमारे लिए यह सहायता देना उचित है। परंतु यही पाकिस्तान हमारे देश में पिछले कई सालों से विशेषकर कश्मीर घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है।

मनमोहन राजावत
शाजापुर, मध्य प्रदेश

व्यवहार के कारण व्यापार संभव नहीं

भारत ने पाकिस्तान के साथ हमेशा अच्छे संबंध बनाने व बनाए रखने की कोशिश की है। पर पाकिस्तान भारत के साथ शत्रुता वाले काम करता है। इस कारण अभी पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का व्यापार करना संभव नहीं लगता। पर परस्पर व्यापार से आम जनता व्यापारी व देश को आर्थिक लाभ तो होता ही है। पर अभी सही परिस्थिति नहीं है।

डॉ उमेश मिश्र
सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

व्यापार हो पर व्यवहार भी सुधारे पाक

पाकिस्तान की खस्ता आर्थिक स्थिति, बाढ़ से आई परेशानी और सरकार बदलने के बाद पाकिस्तान रहनुमा व्यापारिक संबंध सुधारने पर जोर दे रहे हैं। दवा, चीनी, कपास आदि आवश्यक वस्तुओं का लेनदेन बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। हम व्यापारिक संबंध भले ही बढ़ा दें किंतु पाकिस्तान को भी व्यवहार सुधारना चाहिए। कश्मीर पर दुष्प्रचार बंद करना होगा।

शकुंतला महेश नेनावा
इंदौर, मध्य प्रदेश

पाकिस्तान से कारोबार पर लगे प्रतिबंध

राजनीतिक अस्थिरता और बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण पाकिस्तान पर भारत से व्यापार करने की मजबूरी हो सकती है। मगर विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। जिस तरह पश्चिमी देशों ने रूस, उत्तरी कोरिया आदि देशों के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। ठीक वैसे ही भारत को पाकिस्तान के साथ पूर्ण व्यापारिक प्रतिबंध रखने चाहिए।

बृजेश माथुर
गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

व्यापार से आएगी शांति

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से चालू करना दक्षिण एशिया क्षेत्र में एक बड़ा कदम हो सकता है। जिससे न केवल चीन का दबदबा समाप्त होगा, बल्कि इस क्षेत्र में शांति स्थिरता देखने को मिलेगी। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के सामान खरीदना पसंद करते हैं। ऐसे में भारत पाकिस्तान के व्यापार संबंध साफ्टा समझौता व्यापार नीतियों को आगे बढ़ाने में एक रास्ता हो सकता है।

देवेश शर्मा
ई मेल से

व्यापार सकारात्मक संकेत

भारत से पाकिस्तान को लगभग 228 वस्तुओं का जून तिमाही में निर्यात किया गया है, जो दोनों देशों के बीच एक सकारात्मक संकेत है। पाकिस्तान में नए शासन के भारत के साथ बेहतर संबंध हो सकते हैं। पाकिस्तान को प्रतिस्पर्धी दरों पर खाद्य पदार्थों का आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वह उच्च मंहगाई का सामना कर रहा है।

धरेंद्र कपिला
बेंगलूरु, कर्नाटक

पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर होगा

पाकिस्तान से वैसे तो व्यापार नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह बाढ़ और अन्य कारणों के कारण मंहगाई बढ़ी है, उसके लिए जरूरी है कि भारत पाकिस्तान के साथ व्यापार करे क्योंकि ऐसा करने से सारी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि भारत मुसीबत के समय पाकिस्तान का मददगार बना। इसके साथ ही व्यापार से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान और हमारे देश को आर्थिक लाभ होगा।

राजेश कुमार चौहान
जालंधर, पंजाब

भारत से आयात करना पाक की मजबूरी

भारत-पाक प्रत्यक्ष व्यापार में वृद्धि के लिए पाकिस्तान में शासन में बदलाव और बढ़ती आर्थिक चुनौतियां जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान को सस्ती आपूर्ति के लिए भारत की ओर देखने के लिए मजबूर किया है। पाकिस्तान सरकार विनाशकारी बाढ़ के कारण भोजन की कमी दूर करने के लिए भारत से सप्लाय और अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पर विचार कर सकती है।

सुधीर कुमार सोमानी
देवास, मध्य प्रदेश

निर्यातकों के लिए फायदेमंद

भारत और पाकिस्तान के बीच का व्यापार लंबे अर्से से बंद पड़ा हुआ था। अब पाकिस्तान भारत के साथ पुनः व्यापार प्रारंभ करना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से मंहगाई चरम पर है। पड़ोसी देश होने की वजह से भारत से खरीदारी पाकिस्तानी व्यापारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की जनता के लिए भी फायदेमंद है। इससे निर्यातकों और उद्योगों को भी काफी फायदा मिलेगा।

प्रियांशु त्रिपाठी
आजमगढ़, उत्तर प्रदेश

सावधानीपूर्वक हो व्यापारिक लेनदेन

बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों एवं आर्थिक चुनौतियों के कारण पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापारिक संबंध बहाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में पाकिस्तान ने भारत से चीनी, फार्मास्यूटिकल उत्पाद एवं अन्य वस्तुओं के आयात में वृद्धि की है। व्यापार में इजाफा होने से दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों की भी अपेक्षा की जा रही है।

ललित महालकरी
इंदौर, मध्य प्रदेश

पुरस्कृत पत्र

सुरक्षित व्यापार लाभकारी होगा

भारत-पाकिस्तान के बीच व्यापार दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मुख्यतः पाकिस्तान के लिए जो आर्थिक मंदी के गंभीर दौर से गुजर रहा है। भारत-पाकिस्तान व्यापार में पाकिस्तानी कट्टरपंथ तथा कश्मीर राग का हस्तक्षेप न होना अनिवार्य है। दोनों देशों के बाजार में पश्चिमी राष्ट्रों के प्रभुत्व को समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस व्यापार में सुरक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए ताकि तस्करी और जासूसी जैसे कृत्यों पर लगाम लगाई जा सके।

1

प्रयाग उद्देनियां

दमोह, मध्य प्रदेश

पुरस्कार राशि

500 रुपये

श्रेष्ठ पत्र

सूरज कुमार सिंह

सेमापुर, विहार

भारत के लिए फायदेमंद

भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए क्योंकि इससे फल, फूल, चाय व सब्जी किसानों को लाभ होगा और पाकिस्तान को इसकी अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भारत का फार्मास्यूटिकल क्षेत्र अधिक से अधिक दवाओं और चिकित्सकीय उपकरण का निर्यात कर सकेगा और वाहन क्षेत्र को भी एक बाजार मिल सकेगा। पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू होने की सबसे अच्छी बात यह है कि व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में होगा।

प्रदीप गौतम सुमन

रीवा, मध्य प्रदेश

आयात को विवश

आर्थिक चुनौतियों ने पाकिस्तान को भारत से व्यापार करने को विवश कर दिया है। शुरुआती दौर में चीनी और दवाओं का पाकिस्तान आयात करता रहा है। किंतु अब उसे सब्जियां, फल एवं अन्य खाद्य पदार्थ आयात करने पड़ रहे हैं और भविष्य में भारत से जीरा, पेट्रोलियम सहित 350 वस्तुओं का आयात करने के संकेत मिले हैं, जो भारत-पाकिस्तान पड़ोसी देशों के रिश्तों के अनुकूल है और मानवता के हित में है।

...और यह है अगला मुद्दा

हर सोमवार को हम सामयिक विषय पर व्यापार गोष्ठी नाम का विशेष पृष्ठ प्रकाशित करते हैं। इसमें आपके विचारों को प्रकाशित किया जाता है। साथ ही, होती है दो विशेषज्ञों की राय। इस बार का विषय है - **कैसे रुकें सड़क हादसे?** अपनी राय अपने टेलीफोन नंबर और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें: बिज़नेस स्टैंडर्ड (हिंदी), नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फ़ैक्स नंबर- 011-3720201 या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in

आपका निवेश

कर साल में 10,000 रुपये से ऊपर तो अग्रिम कर चुकाना ही बेहतर

एनआरआई को अग्रिम कर भरना ही होगा मगर केवल पेंशन और ब्याज से कमाने वाले वरिष्ठ नागरिक रहेंगे इससे बरी

बिदिशा सारंग

अग्रिम कर की दूसरी किस्त चुकाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है, जो एकदम सिर पर आ गई है। यह आय पर लगने वाला कर है, जिसे साल के अंत में एकमुश्त चुकाने के बजाय हर तिमाही में भरना पड़ता है। इसके वी लॉ ऑफिसेज में सीनियर असोसिएट आशुतोष के श्रीवास्तव ने कहा, 'आम तौर पर कर तभी चुकाना होता है, जब आमदनी होती है। फिर भी आयकर अधिनियम में कहा गया है कि व्यक्ति को पूरे वित्त वर्ष में अपनी आमदनी का अनुमान लगाना होता है और उसके आधार पर तय समय पर कर चुकाते रहना पड़ता है।' मिगलानी वी एंड कंपनी के प्रबंध साझेदार प्रयूष मिगलानी ने कहा, 'एक ही बार में कर की भारीभकम राशि चुकाना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। अग्रिम कर इसलिए शुरू किया गया ताकि करदाताओं पर वित्तीय दबाव कम हो सके।'

कौन चुकाएगा यह कर ?

व्यक्ति चाहे वेतनभोगी हो, कारोबारी हो या पेशेवर श्रेणी से आता हो, यदि किसी भी वित्त वर्ष में उसकी अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है तो कानून के मुताबिक उसे अग्रिम कर चुकाना ही होगा। आईपी पर्सनराला एंड कंपनी में पार्टनर मनीत पाल सिंह ने कहा, 'वेतनभोगी व्यक्तियों को तो वेतन से होने वाली आय पर कर दफ्तर से ही काट लिया जाता है। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के रूप में उनका नियोक्ता हर तिमाही कर काटता रहता है। उन्हें अग्रिम कर



आपको 15 जून तक अपनी कुल कर देनदारी का 15 फीसदी और 15 सितंबर तक 45 फीसदी हिस्सा चुकाना होगा

तभी भरना होता है, जब उनकी किसी अन्य स्रोत से ऐसी आय हो रही है, जिसके बारे में नियोक्ता को पता नहीं है।' जिन वेतनभोगी करदाताओं को किराये, ब्याज और लाभांश जैसे स्रोतों से आय होती है, उन्हें अपने नियोक्ता को इसकी जानकारी देनी होती है। वेद जैन एंड असोसिएट्स में पार्टनर अंकित जैन ने कहा, 'ऐसे मामलों में नियोक्ता ऐसी आमदनी पर टीडीएस ज्यादा काट लेता है और कर्मचारी की ओर से सरकार के पास जमा करा देता है।'

जो लोग कारोबारी या पेशेवर श्रेणी से संबंधित हैं और प्रिजम्प्टिव कर योजना के दायरे में आते हैं, उन्हें भी अग्रिम कर का भुगतान करना पड़ सकता है। मिगलानी ने कहा, 'आगर कोई करदाता धारा 44एडी या 44 एडीए के तहत इस योजना का विकल्प नहीं चुनता है तो उसे धारा 208 के तहत अग्रिम कर का भुगतान करना होगा।' अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के बारे में मिगलानी ने कहा, 'इस अधिनियम में कहीं भी अनिवासी भारतीयों पर अग्रिम कर

कहते हैं, 'अपनी अग्रिम कर देनदारी का हिसाब लगा लें और समय पर इसे भर दें। आप पहली किस्त चुकाने से चूक गए हैं तब भी यह काम जरूर करें ताकि आगे ब्याज चुकाने से बच सकें।'

इन बातों का रहे ध्यान

अग्रिम कर अनुमानित मौजूदा आय पर चुकाना जाना चाहिए। पीएसएल एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स में असोसिएट पार्टनर शोएब कुरैशी ने कहा, 'करदाता को कर अधिकारियों को आय का कोई अनुमान या ब्योरा जमा कराने की जरूरत नहीं है। कर की गणना उस वित्त वर्ष के दौरान लागू दरों के हिसाब से चालू आय (करदाता द्वारा अनुमानित) पर की जा सकती है।' अगर टीडीएस काट लिया गया है तो अग्रिम कर का हिसाब लगाते समय टीडीएस की रकम उसमें से घटाई जा सकती है। मिगलानी कहते हैं, 'कर देनदारी का आकलन धारा 80सी, 90 और 90ए आदि के तहत उपलब्ध कटौतियों पर विचार करने के बाद किया जाता है।' कुरैशी ने बताया कि करदाता फॉर्म 30 भरकर अतिरिक्त अग्रिम कर पर रिफंड का दावा कर सकते हैं। याद रखें कि साल भर में बनने वाला समूचा कर जब तक चुका नहीं दिया जाता है तब तक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया जा सकता है।

सिंह का कहना है, 'कंपनियां और ऐसे करदाता, जिनके लिए कर ऑडिट आवश्यक है, उन्हें अग्रिम कर का भुगतान ऑनलाइन करना चाहिए। अन्य सभी चालान नंबर 280 का इस्तेमाल कर किसी बैंक शाखा में जाकर या ऑनलाइन कर जमा कर सकते हैं।'

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA

MITSU CHEM PLAST LIMITED

Corporate Identity Number: L25111MH1988PLC048925

Our Company was originally incorporated as "Mitsu Chem Private Limited" on September 23, 1988 at Mumbai, Maharashtra as a private limited company under the Companies Act, 1956 with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Thereafter, the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Private Limited", pursuant to a special resolution passed by the shareholders of our Company on May 11, 2016 and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name, was granted to our Company on May 25, 2016 by the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. Subsequently, our Company was converted into public limited company pursuant to special resolution passed by the shareholders of our Company in their meeting held on May 11, 2016 and the name of our Company was changed to "Mitsu Chem Plast Limited" and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion of Company to Public Limited dated June 8, 2016 was issued by Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra. For further details on the change in the name and the registered office of our Company, please see "History and Certain Corporate Matters" beginning on page 155 of the Draft Red Herring Prospectus.

Registered Office: 329, Gala Complex, 3rd Floor, Din Dayal Upadhyay Marg, Mulund (West), Mumbai - 400 080, Maharashtra, India.
Tel: +91 22 2592 0055 | Email: investor@mitsuchem.com | Website: <https://www.mitsuchem.com/>
Contact Person: Drishti Thakker, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: JAGDISH DEDHIA, SANJAY DEDHIA AND MANISH DEDHIA

FURTHER PUBLIC OFFERING OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES") OF MITSU CHEM PLAST LIMITED ("OUR COMPANY") OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ 12,500.00 LAKHS (THE "ISSUE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [●] % OF THE POST-ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

CORRIGENDUM: NOTICE TO INVESTORS

Potential Bidders may note the following:

This is with reference to the draft red herring prospectus dated July 5, 2022 (the "Draft Red Herring Prospectus" or the "DRHP") filed with Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and BSE Limited ("BSE"), together with NSE, the "Stock Exchanges") in relation to the Issue.

The equity shares of the Company are presently listed only on BSE. However, the Company intended to make further public offering on Stock Exchanges. However, as per the NSE direct listing criteria, the Company is not eligible under the direct listing route and hence, decided not to proceed further with making the application with NSE. Accordingly, all the references in relation to NSE will be removed and all the references in relation to Stock Exchanges will be replaced with BSE.

This Corrigendum to be read in conjunction with the DRHP and accordingly the disclosures in the DRHP stand amended pursuant to this Corrigendum. Relevant changes pursuant to this Corrigendum will be appropriately reflected in the Red Herring Prospectus and the Prospectus as and when it is filed with the ROC, the SEBI and the BSE.

All capitalized terms used here in and not specifically defined shall have the same meaning to them in the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
<p>IDBI Capital Markets & Securities Limited 6th Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai 400 005, Maharashtra, India Tel: +91 22 2217 1953 Email: mitsu.ipo@idbicapital.com Investor grievance email: redressal@idbicapital.com Website: www.idbicapital.com Contact Person: Suhas Satardekar / Vimal Maniyan SEBI Registration No.: INM00010866</p>	<p>Bigshare Services Private Limited Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400 093, Maharashtra, India Tel: +91 22 6263 8200 Email: ipo@bigshareonline.com Investor grievance email: investor@bigshareonline.com Website: www.bigshareonline.com Contact Person: Babu Raphael SEBI Registration No.: INR00001385</p>

For and on behalf of Mitsu Chem Plast Limited
Sd/-
Drishti Thakker
Company Secretary and Compliance Officer

Disclaimer: Mitsu Chem Plast Limited is proposing subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations to undertake a further public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated July 5, 2022 with SEBI on July 6, 2022. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in BSE at www.bseindia.com Book Running Leading Manager at www.idbicapital.com and the Company at www.mitsuchem.com. Potential Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see "Risk Factors" of the Red Herring Prospectus, when available. Potential Investors should not rely on the DRHP filed with the SEBI for making any investment decision. The announcement is not an issue to sell or solicitation of any issue to buy Equity Shares in any restricted jurisdiction including the United States. The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made.

Raka

